

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 176
No. 208]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941	[N.C.T.D. No. 176

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

सं. 30/2018- राज्य कर (दर)

**सं.फा. 03(28)/ वित्त (राज.-1)/ 2019-20 / डीएस-VI/393.**—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र-विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथा:-

“स्पष्टीकरण 2- इस मद में निहित कोई भी बात भारत में एक स्थान से भारत में ही दूसरे स्थान तक माल के परिवहन से भिन्न अन्य किसी सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।”।

2. उपर्युक्त मद के वर्तमान स्पष्टीकरण को अब स्पष्टीकरण 1 लिखा जाएगा।

3. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए० के० सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2018-राज्य कर (दर), दिनांक 02/09/2019 जिसे सं.फा. 03(8)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/374 दिनांक 02/09/2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

## FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 3rd September, 2019

### No. 30/2018 – State Tax (Rate)

**No. F.3 (28)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/393.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.11/2017-State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, hereby inserts the following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 9, in column (3), in item (vi), namely:—

“*Explanation 2.*-Nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India”.

2. The existing *Explanation* in the above item shall be renumbered as *Explanation 1*.

3. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1<sup>st</sup> January, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

**Note :** The principal notification No.11/2017-State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381 dated 30<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended vide notification No.17/2018-State Tax (Rate), dated the 2<sup>nd</sup> September, 2019 vide no. F.3(8)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/374 dated the 2<sup>nd</sup> September, 2019.